

आर्कियोलॉजी में करियर

हर एक सभ्यता और संस्कृति की अपनी पहचान होती है। उसका इतिहास भी अलग होता है। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता मेसोपोटामिया और इजिप्त की तुलना में काफी विकसित थी। करियर एक्सपर्ट के मुताबिक वक्त के साथ-साथ अलग-अलग सभ्यताओं के बारे में निरंतर हो रहे अध्ययन से उनके इतिहास के बारे में दिलचस्प और रोचक जानकारी मिलती है। इसके जरिए ही आप अलग-अलग दौर की संस्कृति, मान्यताओं और पर्यावरण के बारे में नई-नई जानकारी हासिल कर सकते हैं। इतिहास में गहरी रुचि रखने वाले छात्रों के लिए आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में करियर की अच्छी संभावनाएं हैं।

★ क्वालिफिकेशन और कोर्स

बारहवीं के बाद बैचलर ऑफ आर्कियोलॉजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आर्कियोलॉजी में डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर और पीएचडी कोर्स उपलब्ध हैं। इससे जुड़े कोर्स देश के प्रमुख संस्थानों से कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी (दो वर्षीय) कर सकते हैं। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट आर्कियोलॉजी में दो स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। मास्टर इन कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड हेरिटेज मैनेजमेंट और मास्टर इन आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज मैनेजमेंट। यदि आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, तो हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी, जिओ आर्कियोलॉजी, आर्कियोबॉटनी, क्रोनॉलॉजिकल, एथनोआर्कियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी, आर्कियोमेट्री आदि कर सकते हैं।

★ क्या करते है आर्कियोलॉजिस्ट

आर्कियोलॉजिस्ट का कार्य कुछ अलग तरह का होता है। किसी सभ्यता के बारे में जानकारी जुटाने के साथ-साथ पुराने धरोहरों को सहेजने का भी काम करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। साथ ही, इनकी जिम्मेदारी पुराने बर्तन, मोती की जानकारी से लेकर एक पूरे शहर की संस्कृति को खंगालने का हो सकता है। खासतौर पर सभ्यताओं के बारे में जानने के लिए जानवरों की हड्डी, प्राचीन मंदिर, भवन, मानव अवशेष आदि की मदद ली जाती है। इसके अलावा, आर्किफैक्ट्स (बर्तन, मोती, प्लेट आदि) को हासिल करने के साथ-साथ, उसकी सफाई, संरक्षण और उसके जरिए पता लगाया जाता है पुरानी सभ्यताओं के बारे में।

केन्द्रीय विद्यालय क्र.१ देवलाली
पुस्तकालय विभाग

★ कहां मिल सकती है नौकरी

टीचिंग, रिसर्च और म्यूजियम। यदि आप रिसर्च के एरिया में जॉब करना चाहते हैं, तो ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन आदि में अवसर तो हैं ही, साथ ही इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन यूनिस्को और यूनिसेफ में भी काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ नेशनल म्यूजियम(नई दिल्ली), स्टेट म्यूजियम, नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट ऐंड कल्चर हेरिटेज आदि में भी ऑर्कियोलॉजिस्ट की मांग होती है। इसके अलावा, टीचिंग में भी शानदार करियर है। यूपीएससी एग्जाम के जरिए आप सरकारी नौकरी भी हासिल कर सकते हैं।

★ अधिक जानकारी के लिए आप निम्न साइट्स पर विजिट कर सकते हैं...

- www.asi.nic.in ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
- www.nationalarchives.nic.in नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
- www.ichrindia.org इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च, नई दिल्ली
- www.bhu.ac.in बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी
- <http://www.dihrm.com> दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च ऐंड मैनेजमेंट, नई दिल्ली
- www.jiwaji.edu जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर
- <http://puonline.bih.nic.in> पटना यूनिवर्सिटी, पटना
- www.puchd.ac.in पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़
- www.allduniv.ac.in इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद